

**क्यूआरटी ने कार से 3 क्विंटल नकली कलाकंद बरामद किया,**

**खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट कराया / क्यूआरटी ने कार से 3**

**क्विंटल नकली कलाकंद बरामद किया, खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट कराया**

**Alwar News - पुलिस की क्यूआरटी टीम ने अलवर-किशनगढ़बास मार्ग के टोल नाके पर वाहन चैकिंग के दौरान अल्टो कार में भरकर ले जाया जा रहा...**

Nov 17, 2018, 04:10 AM IST

[Hindi News](#)

| [Rajasthan](#)

| [Alwar](#)

Kishangarhbas qrt recovered 3 quintals of fake art from the car destroyed by the food security department



पुलिस की क्यूआरटी टीम ने अलवर-किशनगढ़बास मार्ग के टोल नाके पर वाहन चैकिंग के दौरान अल्टो कार में भरकर ले जाया जा रहा नकली कलाकंद जब्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में कलाकंद के सैंपल लेकर इसे नष्ट करा दिया गया। वाहन चालक ने जिस दुकान पर माल ले जाना बताया, वहां भी टीम पहुंची और चमचम और मावे का सैंपल लिया।

थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि शुक्रवार को अलवर किशनगढ़ टोल नाके पर वाहन चैकिंग के दौरान आरपीएस पुलिस अधिकारी लोकेश मीणा के नेतृत्व में अल्टो कार की तलाशी के दौरान 150 पैकेट में करीब 3 क्विंटल नकली मावा बरामद किया। पुलिस ने कलाकंद से भरी कार कब्जे में लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची और कलाकंद की जांच की। पूछताछ में कार चालक गांव डोटाना निवासी इदरीश पुत्र कायम खां ने बताया कि वह किशनगढ़बास से कलाकंद लेकर अलवर जा रहा था। खाद्य सुरक्षा की टीम और पुलिस किशनगढ़बास में बताई गई दुकान पर पहुंचे तो चालक इदरीश अपनी बात से मुकर गया और कहने लगा कि वह गांव डोटाना में खुद नकली कलाकंद बनाता है और सप्लाई करता है। टीम ने चालक इदरीश के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बदबूदार कलाकंद का सैंपल लेकर नष्ट कराया। टीम ने इस दौरान मिठाई की दुकान से भी चमचम व कलाकंद का सैंपल भरा है। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम अधिकारी हारून खां, केशव गोयल, आरपीएस लोकेश मीणा आदि मौजूद रहे।

नकली कलाकंद की जांच करते अधिकारी।